



### प्रोफेसर्स लेक, एल्डोराडो पार्क आउटडोर पूल और बच्चों के पूल्स 14 जुलाई को दुबारा खुल रहे हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 जुलाई, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, प्रोफेसर्स लेक (Professor's Lake), एल्डोराडो पार्क आउटडोर पूल (Eldorado Park outdoor pool) और बच्चों के पूल्स, 14 जुलाई को दुबारा खुल रहे हैं।

सिटी, समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीरता से लेती है, इसलिए सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

#### प्रोफेसर्स लेक

यदि मौसम ठीक रहेगा और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) द्वारा किए गए पानी की क्वालिटी के टेस्ट के नतीजे ठीक आएंगे, तो प्रोफेसर्स लेक, 14 जुलाई को दुबारा खुल जाएगी। 13 जुलाई से शुरू करते हुए, आगंतुकों (विजिटर्स) के लिए बीच पर जाने के लिए, 905.874.2350 पर फोन करके तीन-घंटे का निर्धारित समय (टाइमस्लॉट) सुरक्षित रखना जरूरी है। बोटहाउस अगले नोटिस तक बंद रहेगा।

निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

- व्यक्तिगत/सामूहिक उपयोग के लिए शारीरिक दूरी वाले बीच क्षेत्र नियत करने के लिए निशान लगाए जाएंगे। सभी बीच क्षेत्रों को दो मीटर (छह फुट) दूरी पर रखा गया है।
- आगंतुकों को उनके सुरक्षित बीच क्षेत्रों के बारे में बताने और शारीरिक दूरी का निरीक्षण करने के लिए, साइट पर स्टाफ के लोग मौजूद रहेंगे।
- निवासियों को पाबंदियों और निर्देशों के बारे में बताने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रैफिक सही गति से चल रहा है, कोविड-19 (COVID-19) संबंधी साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।
- पूरी फैसिलिटी में बीच क्षेत्र के आसपास, हैंड सैनिटाइज़र यूनिटें लगाई जाएंगी। लॉबी, बीच लॉबी, वॉशरूम और पैटियो में अधिक-बारंबारता वाली सभी संपर्क जगहों को, नियमित अंतरालों पर सैनिटाइज़ किया जाएगा।
- साइट पर कपड़े बदलने के कमरे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे उस दिन बीच के लिए तैयार होकर ही आएँ।

#### एल्डोराडो पार्क आउटडोर पूल

यदि मौसम ठीक रहेगा और पूल का तापमान ठीक होगा तो एल्डोराडो पार्क आउटडोर पूल, 14 जुलाई को दुबारा खुल जाएगा।



निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

- पूरी फैसिलिटी में कोविड-19 (COVID-19) संबंधी साइन बोर्ड और हैंड सैनिटाइज़र यूनिटें लगाई जाएंगी। पूरी फैसिलिटी में, सभी संपर्क जगहों को नियमित तौर पर सैनिटाइज़ किया जाएगा।
- तैरने में सहायक डिवाइसें और पूल संबंधी खिलौने, अस्थायी तौर पर हटा दिए जाएंगे। हिस्सा लेने वालों को अपने खुद के जरूरी उपकरण लाने की सलाह दी जाती है। जैसे फल्टर बोर्ड्स, फिलपर्स और गॉगल्स। निवेदन करने पर, आने वालों को लाइफ जैकेटें दी जाएंगी।
- साइट पर कपड़े बदलने के कमरे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे उस दिन बीच के लिए तैयार होकर ही आएंगे।
- शारीरिक दूरी को प्रोत्साहित करने के लिए जनता के लिए उपलब्ध, वॉशरूम में अन्य सभी सिंक और वॉशरूम स्टॉल बंद रहेंगे।

### बच्चों के पूल्स

यदि मौसम ठीक रहेगा, तो 14 जुलाई से शुरू करते हुए, बच्चों के पूल्स जनता के लिए खुल जाएंगे। सिटी, गेज पार्क (Gage Park), चिंग्कूज़ी पार्क (Chinguacousy Park) और बारमोरल रेक्रिएशन सेंटर (Balmoral Recreation Centre) में स्थित, बच्चों के तीन पूल्स को संचालित करती है। निवासियों को पाबंदियों और निर्देशों के बारे में बताने के लिए, कोविड-19 (COVID-19) संबंधी साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। निवासियों को पानी संबंधी निर्देशों और शारीरिक दूरी जैसे उपायों के बारे में याद दिलाने के लिए, साइट पर स्टाफ मौजूद रहेगा।

### रिमाइंडर – स्प्रे पैड के घंटे बढ़ाए गए

स्प्रे पैड संचालन के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। यदि मौसम ठीक रहेगा, तो ब्रैम्पटन में स्प्रे पैड्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की बजाय, अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। स्प्रे पैड वाली जगहों की सूची के लिए [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर जाएं।

### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) हर किसी को सलाह देती है और याद दिलाती है कि वे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए [चार मुख्य \(Core Four\)](#) उपायों का पालन करें:

1. दूरी कायम रखें: अपने सुरक्षित और सामाजिक दायरे से बाहर, हर किसी से 2-मीटर की दूरी कायम रखें।
2. साबुन का झाग बनाकर हाथ धोएं: साबुन और पानी से बार-बार अपने हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें।
3. नाक और मुंह को ढकें: जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो और जहां मास्क जरूरी हैं, वहां गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने



साधारण मास्क) पहनें। मेडिकल ग्रेड वाले मास्क न खरीदें, ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए उनकी कमी न हो।

4: टेस्ट करवाएं: यदि आपको लगता है कि आपको कोविड-19 हो सकता है या आप इसके संपर्क में आए हैं, तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट के नतीजों की प्रतीक्षा करते समय, घर में रहें, खुद को अलग रखें और संभावी फैलाव से बचें।

यदि आप बीमार हैं, तो कृपया प्रोफेसर्स लेक, एल्डोराडो आउटडोर स्विमिंग पूल या बच्चों के पूल्स में न जाएं।

नए अस्थायी [बाड़-लॉ \(by-law\)](#) के अंतर्गत, कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, 10 जुलाई से, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी होगा।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)